

Date: August 25, 2020

| | |
|--|--|
| To Corporate Relations Department BSE Limited 1st Floor, New Trading Ring Rotunda Building, P J Tower Dalal Street, Fort, Mumbai 400 001 | To Corporate Listing Department National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, 5th Floor Plot No.C-1, G Block Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai 400 051. |
|--|--|

Dear Sir

Sub: Intimation regarding 23rd Annual General Meeting to be held through VC/OAVM.

Ref: Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Scrip Code: BSE Code: 541700, NSE Code: TCNSBRANDS

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, attached herewith the copies of the newspaper advertisements in respect of the 23rd Annual General Meeting of the Company, scheduled to be held on Thursday, September 24, 2020 at 2.00 p.m. (IST), published in compliance with the MCA Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, in the following newspapers:

1. Business Standard-English on August 25, 2020; and
2. Business Standard-Hindi on August 25, 2020.

This is for your information and records.

For and On behalf of TCNS Clothing Co. Limited



Piyush Asija
Company Secretary and Compliance Officer
M. no. : A21328



Hindalco has rerating potential

Rebound in aluminium price, positive Novelis outlook boost confidence in stock



UJJVAL JAUHARI
New Delhi, 24 August

Hindalco is one of the key Indian beneficiaries of the significant rebound in base metal prices on the London Metal Exchange (LME). The company has continued to report reasonable financial performance, despite the challenges posed by the Covid-19-triggered demand disruption and slowdown.

The stock is among the top picks of brokerages, which are anticipating further upside with an improvement in the operating environment.

The aluminium price on the LME had seen a low of close to \$1,421 a tonne in April; it averaged \$1,497 in the June quarter (Q1) versus \$1,690 in the March quarter. With the start of economic activities worldwide, the LME aluminium price is now close to \$1,722 a tonne. Credit Suisse has already raised its LME assumptions for the rest of FY21-22 in line with global forecasts from \$1,640 to \$1,725 per tonne.

Even the LME copper price has rebounded to \$6,667 a tonne, from the low of \$4,618 in March. Though Q1 had seen the overall domestic market decline 53 per cent to 91,000 tonne and weakness in

treatment and refining margins, as well as realisations of products, such as sulphuric acid and DAP, improving demand reflected in rebounding the LME price should boost the segment's prospects.

The domestic performance of Hindalco for Q1 had already induced confidence. Despite challenges in the domestic business (a 57 per cent fall in domestic aluminium consumption), Hindalco still was able to report aluminium metal sales of 303,000 tonne versus 320,000 tonne in the year-ago quarter, helped by higher exports. Hindalco also sustained Ebitda at ₹856 crore (versus ₹853 crore in Q1) in the Aluminium India business.

Its US subsidiary Novelis — which remains a convertor and, hence, insulates Hindalco's consolidated performance from

FIRM EARNINGS OUTLOOK

Consolidated figures in ₹ crore

| | FY21E | FY22E |
|----------------|---------|---------|
| Revenue | 120,206 | 128,249 |
| % change YoY | 1.7 | 6.7 |
| Ebitda | 14,739 | 15,717 |
| % change YoY | 2.3 | 6.6 |
| Pre-tax profit | 4,344 | 5,945 |
| % change YoY | -26.7 | 36.9 |
| Net profit | 2,198 | 3,586 |
| % change YoY | -45.4 | 63.1 |

E: Estimates
Ebitda: Earnings before interest, tax, depreciation, and amortisation
Source: HSBC Research

NECK AND NECK



volatility in LME prices — has seen its contribution to consolidated Ebitda rise regularly to 70 per cent in Q1. Despite the slowdown in FY20, Novelis reported adjusted Ebitda of \$1,443 million (up 5.5 per cent). Though Novelis felt the heat in its US and Europe markets because of Covid-19, the business has been rebounding. It had seen record high automotive vol-

umes in China during Q1 and in other geographies, the automotive demand recovered to pre-Covid levels. Demand for beverage cans remains strong. Among the newly acquired portfolios from Aleris, the performance of the aerospace sector is likely to stay muted, whereas building and construction is seen improving, say analysts.

Specialty continues to do well, led by strong demand from electronics and electric vehicles. The management expects per tonne profitability to stay in the \$450-475 range versus the FY20 figure of \$399.

Overall, analysts at Motilal Oswal Securities (MOSL) say the outlook for Novelis is positive, led by resilience in the beverage can business and global demand recovery in automobiles — a high margin segment. With improving profitability in the India business, MOSL has raised its target price to ₹233 (from ₹186 earlier).

Credit Suisse, assuming Ebitda per tonne of \$410 for Novelis in FY22 and higher aluminium price, too, has raised its FY22 earnings estimate by 34 per cent and the target price to ₹240. Hindalco remains its top non-ferrous pick because of the focus on deleveraging and improving profitability at Novelis.

Clearly, there is upside for the stock, which at ₹194.25 has doubled from lows of March. Analysts at HSBC say improving India performance and strong Novelis outlook can help the stock rerate. The company's enterprise value/Ebitda multiple has already rebounded sharply from multi-year lows. The stock still trades at a discount to its long-term average.

Avoid brokers that offer high leverage

Low networth and high debt should also act as red flags for those planning to invest

SANJAY KUMAR SINGH

Brokerages are leaving no stone unturned to attract new retail customers who have been entering the stock markets in droves in recent months. They have been showering them with inducements of all kinds — zero or low account opening fee and annual maintenance charge, gift vouchers to the customer and to the person who referred him, and so on. Instead of getting swayed by these considerations, customers should single-mindedly focus on selecting a broker with whom their money and securities will be safe over decades.

It is best to stay away from brokers who offer high leverage. "They are the ones who bend risk-management rules to attract customers and take the maximum risk," says Nithin Kamath, founder and chief executive officer (CEO), Zerodha, the country's largest stockbroker.

If the broker offers 4-5x leverage on stocks, that is fine, but you should stay away from those that offer 20x. Kamath adds you should also avoid brokers who have a high level of debt on their balance sheets (this document can be accessed from the Ministry of Corporate Affairs' website by paying a small fee).

Information on the broker's networth is also available in the balance sheet. "One with a networth of at least ₹40-50 crore has a good amount of skin in the game and is less likely to cheat customers," says Jimeet Modi, founder and CEO, SAMCO Securities.

Shrey Jain, founder, SAS Online, a Delhi-based discount broking firm, adds that a broker should have at least

2,000 active clients. "Only if he has that many clients will he be able to meet his fixed costs and sustain a retail business," says Jain.

Steer clear of brokers who engage in proprietary trading. "In many past scams, the broker incurred losses in proprietary trading, used customers' money to make good the losses, and ultimately went belly up," adds Modi. Information on whether the broker engages in proprietary trading is available in the account-opening form.

A series of related-party transactions involving large sums should also raise a red flag. Information on such transactions is available in the broker's annual report. Also, check out if in the past the Securities and Exchange Board of India (Sebi) has levied massive penalties. This information can be accessed from the Sebi's website.

Stay watchful even after you have become a customer. "If you ask for your money that has been lying with the broker and there is delay in making the payout, that is an early sign that the broker is in financial trouble. Shift to another broker at the earliest," says Vikas Singhania, executive director, TradeSmart Online.

Avoid brokers who are always inducing you to trade — to generate revenue for themselves. If you receive reports from a full-service broker, read them to educate yourself. The buy-and-sell decision should, however, be your own. You could also take advice from an independent Sebi-registered stock advisor. Keeping advice and execution separate will enable you to avoid conflicts of interest and receive unbiased recommendations.



YOUR MONEY

Kalyan Jewellers files for ₹1,750-crore IPO

SUNDAR SETHURAMAN
Thiruvananthapuram, 24 August

Kerala-based Kalyan Jewellers India has filed its offer document with the Securities and Exchange Board of India (Sebi) for a ₹1,750-crore initial public offering (IPO).

The issue comprises fresh fundraise of ₹1,000 crore and ₹750-crore secondary share sale by promoter T S Kalyanaraman and private equity firm Warburg Pincus. This IPO will be the biggest by a jewellery retail brand in the domestic market.

Axis Capital, Citibank, ICICI Securities, SBI Caps, and BoB Capital Markets are the

investment bankers handling the issue. Kalyan Jewellers plans to use ₹1,000 crore to fund its working capital and for other corporate purposes.

The company started in 1993 with a single showroom at Thrissur, Kerala, and now has 107 stores across 21 states and Union Territories in India. It also has 30 showrooms located in West Asia. The stores are operated and managed by the company.

In FY20, revenue from operations of Kalyan Jewellers stood at ₹10,100 crore, of which 78.19 per cent was from India, and 21.8 per cent was from West Asia. Its closest rival is Titan's Tanishq.

Eicher shares rise on stock split

SAMIE MODAK
Mumbai, 24 August


Eicher Motors surged as much as 10 per cent (intra-day) to ₹2,389 on Monday after the 10-for-1 subdivision of its shares took effect.

The stock, however, gave up most gains to end at ₹2,177, up 0.23 per cent. The company on May 25 had announced the stock split to make the stock more affordable for the small retail investors and increase liquidity.

Prior to the stock split, the stock traded at more than ₹20,000 apiece, making it one of the most high-valued stocks in absolute terms.

Other popular stocks with high denomination in the domestic markets include Page Industries, shares of which last

ON A HIGH



closed at ₹20,892, and MRF, which ended at ₹59,777 on Monday.

Stock splits is a common corporate action followed by India Inc to reduce the denomination of their stock and improve their market liquidity.

This year, close to 20 companies have announced stock splits, while last year, about 30 of them had sub-divided their shares. Often it is seen that share

prices rally after stock split as new investors flock to the counter.

However, experts warn that stock splits don't change the fundamentals or financial metrics of a company. They advise investors against buying a stock purely based on the stock split news. To explain, a 2-for-1 stock split doubles the number of outstanding shares of a company but also halves its price. Not just India, globally also top technology giants, Apple and Tesla, have announced similar stock splits.

Apple shares trade at around \$500 a dollar, while that of Tesla quote above \$2,000. Tesla shares will be split into five, while Apple stock will see a 4-for-1 split. Retail brokerages in the US, such as Robinhood, also allow investors to buy fractional shares.

W aurelia **WISHFUL** **elleven**

TCNS CLOTHING CO. LIMITED
Regd Office: Unit No. 112, F/F Rectangle 1, D-4, Saket, District Centre New Delhi-17
Corporate Office: 119, New Mangalpur, W-House, Mandi Road, Sultanpur, Mehrauli, New Delhi-110030; Tel.: 011-42193193; Fax: 011-42193194
Website: www.wforwoman.com; Email: investors@tcnsclothing.com
CIN: L99999DL1997PLC090978

NOTICE OF 23rd ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of TCNS Clothing Co. Limited ("the Company") is scheduled to be held on Thursday, 24th September, 2020 at 02:00 P.M. (IST), through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business as set out in the Notice convening the said AGM. The AGM is being held through VC/OAVM in compliance with MCA Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, MCA Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and MCA Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and other applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBIHO/CFD/CMD1/CI/RP/2020/79 dated May 12, 2020 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") collectively Applicable Circulars.

In terms of Applicable Circulars, the Annual Report and the Notice convening the AGM are being sent only in electronic form to those Members whose e-mail addresses are registered with their respective Depository Participant(s)/Registrar and Transfer Agents ("RTA") of the company viz. KFin Technologies Private Limited ("KFin Tech"). Members who have not registered their email address may temporarily get their email address and mobile number updated with the Company's RTA, by clicking the link https://ris.kfintech.com/email_registration and selecting the name of the Company i.e. TCNS Clothing Co. Limited and thereafter filling in the required details. Alternatively, Members may send an email request at the email id umesh.pandey@kfintech.com or inward.ris@kfintech.com along with the scanned copy of the signed request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN card and Client Master Copy of electronic folios /share certificate for physical shares.

The Annual Report and the Notice of AGM along with e-voting instructions shall be made available on the website of the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) KFin Tech at www.evoting.karvy.com as well as on the website of the company at www.wforwoman.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

The Members are requested to refer the AGM Notice, for instructions in respect of attending the AGM through VC/OAVM.

The Company is providing its Members the facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed by remote e-voting before the AGM and Insta poll during the AGM, by which members may cast their votes using the remote e-voting/Insta poll system from a place other than the venue of the AGM. The remote e-voting facility shall commence on Monday, 21st September, 2020 at 09:00 A.M. (IST) and ends on Wednesday 23rd September, 2020 at 05:00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall thereafter be disabled for voting and subsequently enabled for Insta poll during the AGM. The manner of remote e-voting and Insta poll during the AGM for Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their e-mail addresses will be provided in the notice to the Members.

Only Members, whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners as on cut-off date viz. Thursday, 17th September, 2020 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before the AGM and Insta poll during the AGM. Any person who becomes the Member of the Company after dispatch of Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date may obtain the "USER ID" and "Password" by sending a request at umesh.pandey@kfintech.com or inward.ris@kfintech.com. The detailed procedure for obtaining the "USER ID" and "Password" is also provided in the notice of AGM, which will be made available on the Company's website and KFin Tech's website mentioned above. If the Member is already registered with KFin Tech for e-voting, he can use his existing "USER ID" and "Password" for casting the vote through remote e-voting/Insta poll. The credentials for remote e-voting/Insta poll are to be used by the Member for attending the AGM through VC/OAVM.

The Members who cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) on Insta poll again.

Notice of the 23rd AGM will be sent to the Members in accordance with applicable laws on their registered email addresses in due course.

By order of the Board for TCNS Clothing Co. Limited
Piyush Asija
Company Secretary & Compliance Officer
M. No. A21328

Place: New Delhi
Date: August 25, 2020

REC Limited (A Government of India Enterprise)
(Formerly Rural Electrification Corporation Limited)

Notice to shareholders about convening of 51st AGM of REC Limited through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means

1. Notice is hereby given that the 51st Annual General Meeting (AGM) of REC Limited will be held through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) on **Friday, September 25, 2020 at 11:00 A.M. IST** in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and General Circular dated May 5, 2020 read with Circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular dated May 12, 2020, without physical presence of Members at a common venue.

2. In compliance with the above circulars, the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2019-20 will be sent **only** by e-mail, to those shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). Shareholders will have an opportunity to join and participate in the 51st AGM through VC/OAVM facility only and cast their vote on the items of business as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting prior to the AGM and through electronic voting system during the AGM. The detailed instructions for attending the AGM, remote e-voting for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for those shareholders whose e-mail IDs are not registered, will be provided in the Notice of AGM.

The Notice of the 51st AGM and Annual Report for the financial year 2019-20 will also be made available on the website of the Company i.e. www.recindia.com and website of Stock Exchanges where the shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

3. Shareholders holding shares in physical mode and who have not updated their e-mail IDs, mobile numbers or bank details (for receiving electronic payments of dividend, as & when declared by the Company) are requested to update the same by sending an e-mail at inward.ris@kfintech.com with copy marked to complianceofficer@rec.in along with a signed request letter mentioning Folio No., Name of shareholder(s), address, bank details, scanned copy of share certificate (front & back), self-attested scanned copy of PAN card, cancelled cheque, address proof (Aadhar Card/Driving License/ Passport) etc.

Shareholders holding shares in dematerialized mode, are requested to register their e-mail addresses, mobile numbers and bank details (for receiving electronic payments of dividend, as & when declared by the Company), with their Depository Participants.

4. Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. April 1, 2020. Accordingly, the Company will be required to deduct tax at source (TDS) at the time of making payment of dividend, as and when declared by the Company, at the rates prescribed in the Income Tax Act, 1961. To enable compliance with the TDS requirements, shareholders are requested to submit Form 15G/15H and update their residential status, PAN, category as per the Income Tax Act, 1961 etc. with their Depository Participant(s) or with the Company/R&TA at the e-mail IDs mentioned above.

For REC Limited
Sd/-
(J.S. Amitabh)
Executive Director & Company Secretary

Registered Office: Core-4, SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi-110003,
Tel.: 91-11-43091500, Fax: 91-11-24360644, E-mail: complianceofficer@rec.in
Website: www.recindia.com CIN: L40101DL1969GOI005095

Date: August 24, 2020

Apollo Micro Systems Limited

Registered Office: Plot No 128/A, Road No. 12, BEL Road, IDA Mallapur, Uppal Mandal, Hyderabad-500076, Telangana, India; Corporate Identity Number: L72200TG1997PLC026556
Telephone: +91 40 2716 7000 - 99; Facsimile: +91 40 2715 0820;
Email: cs@apollo-micro.com; Website: www.apollo-micro.com;

NOTICE

Intimation of Board Meeting under Regulation 29(1) (a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
Subject: Fixation of Board Meeting on Saturday, August 29, 2020 at the registered office of the Company

This is to inform you that meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Saturday, August 29, 2020**, at the registered office of the Company, inter-alia to consider and approve the following and other business with the permission of the chair.

- Un-Audited Financial results of the Company for the First Quarter ended June 30, 2020.
- Fixation of Date, Time and Place of 23rd Annual General Meeting for the FY2019-20 and other businesses with the permission of the chair.

Further, pursuant to the Company's "Code of Internal Procedures and Conduct to Regulate, Monitor and Report of Trading by Insiders" the Trading Window for dealing in the securities of the Company has been closed from 1st July, 2020 and would remain closed till 48 hours after the financial results are declared on 29th August, 2020.

We request you to kindly take the above on record and bring to the notice of all concerned.
For Apollo Micro Systems Limited
Sd/-
Vitta Chaitanya Siva Shankar
Company Secretary and Compliance officer
Date: 23 August, 2020

PSPCL Punjab State Power Corporation Limited

OFFICE OF CHIEF ENGINEER /METERING
C-3 Shakti Vihar, PSPCL, Patiala, Punjab-147001
Tel No 0175-221881/ Fax: 0175-2200284,
e-mail: se-hq-metering@pspcl.in
CIN: U40109PB2010SGGC033813, Registration Number: 33813,
Website: www.pspcl.in E-tendering portal: <http://eproc.punjab.gov.in>

NOTICE INVITING TENDER

| Tender Specification No. | MQP 160/2019-20/PO(M) |
|---------------------------------------|--|
| Short Description | Design, Supply, Installation, Testing, Commissioning, Reading, Analysis and 5 year O&M of Smart Meters, AMI system & Communication infrastructure with a network platform in Nagar Aggar Special Division of Ludhiana City on Turkey Basis. |
| Quantity | Single phase smart meters: 90,000 Meters Three phase smart meters: 25,000 Meters LTCT smart meters: 2,500 Meters The above meters are to be supplied along with equal number of polycarbonate, meter boxes. Also, HES and MDM scalable upto data of 2,35,000 nos. meters. |
| Date of pre-bid meeting | 02.09.2020 at 11:00 Hrs. at Guest House, PSTCL, SAS Nagar (Near Yadavindra Public School, SAS Nagar) |
| Bid submission start date | 24.08.2020 from 11:00 Hrs onwards |
| Last date of downloading of documents | 22.09.2020 up to 11:00 Hrs |
| Last date of Bid submission | 22.09.2020 up to 11:00 Hrs |
| Bid Opening (Part-I & II) | 25.09.2020 at 11:00 Hrs |
| Contact Person Name | Er. Charanjit Singh Hazura SE/HMC, PSPCL, Patiala. |

Tender specification can only be downloaded from PSPCL e-tendering website <https://eproc.punjab.gov.in>. Tender ID is: 2020_POWER_52392_1
Note: Corrigendum, if any after the publication of this tender enquiry shall only be uploaded on website <https://eproc.punjab.gov.in> and will not be published in newspapers.

SE/HMC
PSPCL, Patiala
C 267/2020 1/67435/2020

emami paper mills limited

Regd. Office : ACROPOLIS, Unit No. 1, 15th floor, 1858/1, Rajdanga Main Road, Kolkata -700 107, Ph. No. 91 33 6627-1301, Fax No.91 33 6627-1338.
e-mail: emamipaper.com, website : www.emamipaper.in
CIN : L21019WB1981PLC034161

NOTICE OF THE 38TH ANNUAL GENERAL MEETING AND OTHER RELATED INFORMATION

Members are hereby informed that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on **Monday, 21st day of September, 2020 at 11.00 a.m.** (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), in conformity with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules thereunder read with the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

The Notice of the 38th AGM and Annual Report 2019-20 of the Company will be sent on or after 25th August 2020 only by electronic mode to all the Members whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners as on 21st August 2020, by M/s Maheshwari Datamatics Pvt Ltd., Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Company whose email IDs are registered with the RTA or the Depository Participants (DP).

The copy of the Annual Report 2019-20 is also available on the Company's website www.emamipaper.in and also on the website of BSE Limited at www.bseindia.com & National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com where the shares of the Company are listed. Members who do not receive the Annual Report may download it from Company's website or may request a copy of the same by writing to the Company's RTA at mdpdc@yahoo.com or Company Secretary of the Company at gsaraf@emamipaper.com.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its Members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the AGM of the Company using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting (remote e-voting) along with option of voting at the AGM by e-voting. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") to provide e-voting facility.

Under Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain close from 15th September, 2020 to 21st September, 2020 (both days inclusive).

The remote e-voting shall commence on Friday, 18th September, 2020 from 10.00 a.m. (IST) and ends on Sunday, 20th September, 2020 at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A person, whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners as on the cut-off date of 14th September, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the Meeting. The Members who cast their vote by remote e-voting may attend the Meeting through VC/OAVM Facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-voting system during the AGM.

Any person who becomes Member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date of 14th September 2020, may obtain the user id and password by sending a request at e-voting@cdsl.co.in. If a person is already registered with CDCL for e-voting the existing user ID and password can be used for casting vote.

Those shareholders who are holding shares in Physical Form or have registered/not registered their e-mail address or registered an incorrect e-mail address and mobile numbers including address and bank details may please contact and validate/update their details with the Depository Participants in case of shares held in electronic form and with the RTA in case of shares are held in physical form.

In case of any queries or issues regarding e-voting, the Member may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under Help section or contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDCL), Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Malatya Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013, Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.

रेलीगेयर हाउसिंग
डेवलपमेंट फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय: पता: पी-14/45/90, पी-ब्लॉक, पहली मंजिल, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001
 केंद्रीय कार्यालय: पहली मंजिल, प्रयाग प्लाज़ा इमारत, ए. 3, 4, 5, सेक्टर-125, नोएडा-201301

कब्जा सूचना [(पब्लिश IV) नियम 8(1)]
 सूचित, रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएचडीएफसीएल), नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ पंजीकृत एक हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनी (भारतीय रिज़र्व बैंक की सम्पूर्ण स्वामित्व वाली) के अधिकृत अधिकारी के ने नामे अयोधरसाहरी द्वारा प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संबंधितों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिकरण लिमिटेड प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (5 ऑफ 2002) (जिसे यहां बाद में "आरएचडीएफसीएल" कहा गया है) के प्राकानों के अधीन तथा प्रतिभूतिकरण लिमिटेड (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के प्रयोग के तहत (1) स्व मेहरा पिता जवाहर चंद मेहरा, (ii) जवाहर मेहरा पिता हनुमन चंद मेहरा तथा (iii) रघु मेहरा पति जवाहर मेहरा, सभी का आवधिक पता सी-1/49, डीएलएफ अंडर विहार, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 है, और एक पता: फ्लैट नं. जीएफ-3, जीएफ, एमआईडी फ्लैट के पीछे की ओर, प्लॉट नं. सी-1/49, डीएलएफ अंडर विहार, सुरुवालाबाद, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-2011001, और एक पता: द्वारा एच. एच. ऑटोमोबाइल, एम-35, डीएलएफ कॉम्प्लेक्स अंडर विहार, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-2010110 ("कारजदार") तथा ("सह-कारजदार") को एक मांग सूचना दिनांकित 13.03.2020 जारी की गई थी, जिसमें संबंधित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लिखित रकम रु. 13,45,482.48 (रुपये तेरह लाख पैंतालीस हजार चार सौ बयासी एवं पैसे अठ्ठासीस मात्र) के साथ दिनांक 13.03.2020 से उस पर ब्याज की रकम चुकाना करने को कहा गया था।

मांगदा उक्त रकम का भुगतान करने में असफल हो चुके हैं। एतद्वारा कर्जदारों एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित प्रतिभूतिकरण लिमिटेड (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत अयोधरसाहरी द्वारा 21 अगस्त, 2020 को यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया गया है। विशेष तौर पर कारजदार तथा आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस संबंधित से संबंधित सूचना न करे तथा इस संबंधित से संबंधित कोई भी सीधा रु. 13,45,482.48 (रुपये तेरह लाख पैंतालीस हजार चार सौ बयासी एवं पैसे अठ्ठासीस मात्र) के साथ दिनांक 13.03.2020 से उस पर ब्याज की रकम के लिए "आरएचडीएफसीएल" के प्रभार का विषय होगा।

कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राकानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि अगर कर्जदार पर्याप्त रूप से सम्पत्तियों की बिक्री/हस्तांतरण की निष्पत्ति तारीख से पहले किसी भी समय सभी लागतों, शुल्कों तथा किए गए व्ययों के साथ आरएचडीएफसीएल के बकाया राशि चुकाना कर दें पर "आरएचडीएफसीएल" द्वारा संबंधित प्रत्याभूत सम्पत्तियों की बिक्री अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाएगा तथा "आरएचडीएफसीएल" द्वारा प्रत्याभूत सम्पत्तियों की बिक्री अथवा हस्तांतरण के लिए आने की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण नीचे उल्लेखित है

रिहायशी प्लॉट नं. सी-1/49, डीएलएफ अंडर विहार, ग्राम सुरुवालाबाद, तहसील एवं जिला लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-2011001 पर निर्मित रिहायशी फ्लैट नं. जीएफ-3, भूतल, एमआईडी फ्लैट के पीछे की ओर, छत के अधिकार के बगैर, श्रीपी-एमआईडी, सुपर अर्धवृद्धि क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट सम्मिलित सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सार्वजनिक हित।

स्थान: लोनी, गाजियाबाद
 तारीख: 21.08.2020
 मेसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ताक्षर अधिकृत अधिकारी

मेसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ताक्षर अधिकृत अधिकारी

मेसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ताक्षर अधिकृत अधिकारी

मेसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ताक्षर अधिकृत अधिकारी

मेसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ताक्षर अधिकृत अधिकारी

मेसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ताक्षर अधिकृत अधिकारी

मेसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ताक्षर अधिकृत अधिकारी

मेसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ताक्षर अधिकृत अधिकारी

मेसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ताक्षर अधिकृत अधिकारी

मेसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ताक्षर अधिकृत अधिकारी

मेसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ताक्षर अधिकृत अधिकारी

मेसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ताक्षर अधिकृत अधिकारी

मेसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ताक्षर अधिकृत अधिकारी

मेसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ताक्षर अधिकृत अधिकारी

मेसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: प्लाट ए-1, सेक्टर 40/41, सुरजपुर कासना रोड, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201306
 CIN: U15114UP1995PLC098377, ई-मेल: corporate@hondacarindia.com
 टेलीफोन: 0120-2341313, फैक्स: 0120-2341261, वेब साइट: www.hondacarindia.com

सूचना

एतद्वारा कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 201(2) के अनुसार, कंपनी के सदस्यों को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी, कथित अधिनियम की धारा 196 एवं अन्य लागू प्राकानों, यदि कोई हो, के तहत श्री मसाकी मोरिता को 10 जुलाई 2020 एवं डिजिटल आधिकारों को 01 अगस्त 2020 से पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के समक्ष आवेदन करना चाहती है।

कृते होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड
 अरुण प्रताप सिंह
 कंपनी सचिव

स्थान: ग्रेटर नोएडा
 दिनांक: 24.08.2020

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट सं. एच-5पी, नेक्शन मंडेला मार्ग रोड, बसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 • CIN: L74899DL1993GOI05415
 वेबसाइट: www ONGCINDIA.COM, ई-मेल: secretariat@ongc.co.in
 रूपांतर: 011-267504073, फेस: 011-26129081

सूचना

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसारण एवं एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि अन्य कार्यों के साथ साथ 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनोपेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने और उन्हें अनुमोदित करने हेतु मंगलवार, 01 सितम्बर, 2020 को निदेशक मंडल की एक बैठक आयोजित की जाएगी।

सेबी (आंतरिक खरीद-बिक्री निषेध) विनियम, 2015 के साथ पठित उसके संशोधन (विनियम) के प्राधान्यों तथा संबंधित विनियम के अधीन कंपनी की नीतियों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को दिनांक 23.03.2020 को दी गई सूचना के तहत ट्रेडिंग विंडो बंद करने की वार्षिक योजना के अनुसार, यथा सूचित, पदानामित व्यक्तियों के लिए खरीद बिक्री ट्रेडिंग विंडो बृहस्पतिवार, 3 सितम्बर, 2020 तक बंद रहेगी।

यह नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.ongcindia.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nse-india.com तथा www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

कृते ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 (एम. ई. वी. सेलम्स)
 अनुपालन अधिकारी, कम्पनी सचिव एवं कार्यकारी निदेशक

नई दिल्ली
 24.08.2020

हस्ताक्षर अधिकृत अधिकारी

मेजैस्टिक ऑटो लिमिटेड

CIN No.: L39911DL1973PLC353132
 पंजीकृत कार्यालय: 10, शाहनदा एवेन्यू, महरानी बाग, नई दिल्ली
 कॉर्पोरेट कार्यालय: ए-111, सेक्टर-4, नोएडा-201301
 सेंट्रल नम्बर: 0120-4348907,
 ईमेल आईडी: grievance@majesticauto.in

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूतिकरण एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आयाचकताएं) विनियमन, 2015 ("सूचीकरण विनियमन") के विनियमन 29 एवं 47 के अनुसार 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के एकल एवं समकित अनोपेक्षित वित्तीय परिणामों के साथ अन्य विषयों पर विचार एवं अनुमोदित हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार, 29 अगस्त, 2020 को आयोजित होगी।

इस सूचना में सम्मिलित जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.majesticauto.in तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते मेजैस्टिक ऑटो लिमिटेड
 इरसा,
 (जूनी गर्म)
 कंपनी सचिव

स्थान: नोएडा
 तारीख: 24.08.2020

हस्ताक्षर अधिकृत अधिकारी

मेजैस्टिक ऑटो लिमिटेड

COSMO FILMS LIMITED
 Enginereed to Enhance

Regd. Off: 1008, DLF Tower-A, Jassola District Centre, New Delhi- 110025
 CIN: L1976DL1976PLC098355, फैक्स: 011-49494950
 E-mail: investor.relations@cosmofilms.com, वेबसाइट: www.cosmofilms.com

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following original Share Certificates of Cosmo Films Ltd issued by the company are stated to have been lost or misplaced or stolen and the registered holder thereof/ claimant has applied to company for issue of Duplicate Share Certificate.

| Sr. No. | Name & Folio No. | Name of Claimant | Certificate No. | Distinctive Nos. | No. of Eq. Shares |
|---------|------------------|------------------|--------------------|---|-------------------|
| 1. | Abha Gupta A6549 | Abha Gupta | 37047 202786 29516 | 2193920-2193989 10410546-10410645 1593001-1593050 | 200 |

Any person(s) who has/have any claim(s) in respect of such share certificates should lodge such claim(s) in writing with the registrars and transfer agent M/s. Alankit Assignments Ltd., 3E/7, Alankit Heights, Jhandewalan Extn. New Delhi 110055, Tel: 011-42541234, within 15 days of Publication of this notice after which no claims will be entertained and the registrars will proceed for issuing duplicate certificates.

For and on Behalf of COSMO FILMS LTD.
 Sd/-
 Jyoti Dutt
 Company Secretary

Dated: 24th August, 2020
 Place: New Delhi

पीसीए टेक्नोलॉजिंस प्राइवेट लिमिटेड

Company Identification Number: U29308DL2020PTC362720

कंपनियों के पंजीकरण, दिल्ली के समक्ष
 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 के साथ पठित कंपनी (गठन) नियमों, 2014 के नियम 30 के अंतर्गत प्रकटन के पंजीकरण (आरओसी), दिल्ली के समक्ष आवेदन दायर करने का रही है।

पीसीए टेक्नोलॉजिंस प्राइवेट लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय
 3739/2, कन्हैया नगर, ट्राई नगर, दिल्ली-110035

(आवेदक)

एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को दिल्ली राज्य से गुजरात राज्य में स्थानांतरित करने की प्रकटीकरण की मांग के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 एवं 13 के साथ पठित कंपनी (गठन) नियमों, 2014 के नियम 30 के अंतर्गत प्रकटन के पंजीकरण (आरओसी), दिल्ली के समक्ष आवेदन दायर करने का रही है।

कोई भी व्यक्ति जिन्का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित बदलाव से प्रभावित हो सकता है, ऐसे व्यक्ति अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों (21 दिनों) के अंदर संबंधित आरओसी, दिल्ली, चौथी मंजिल, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 के कार्यालय में दर्ज करें तथा साथ में हित की प्रकृति एवं विषयों के कारण, यदि कोई है का उल्लेख करें एवं उसे हलफनामा द्वारा समर्थित कर पंजीकृत डाक द्वारा भेजें साथ में उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के पास ऊपर उल्लिखित पते पर स्थित उनके पंजीकृत कार्यालय में भी भेजें।

निम्नलिखित के लिए तथा उनकाी ओर से
 कृते पीसीए टेक्नोलॉजिंस प्राइवेट लिमिटेड
 शोभा शर्मा शर्मा
 (निदेशक)
 स्थान: दिल्ली
 तारीख: 21.08.2020

डीआईएन-08721819

ब्रॉन बायोटेक लिमिटेड

CIN : L74899DL1985PLC022468

पंजीकृत कार्यालय: 4थी, अक्षर अली रोड, दूसरी मंजिल, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, नई दिल्ली-110002 दूरभाष: 011-3275208, 0124-4880196
 ई-मेल: solution@brawnbiochem.com, वेबसाइट: www.brawnbiochem.com

35वीं वार्षिक साधारण बैठक, ई-वोटिंग एवं बंद होने की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सिर्फ ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायिक पदवृत्तों पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसीओ" आइडियो विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("आइवीओ") के जरिये कंपनी के सदस्यों की 35वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2020 को पूर्वाह्न 11:00 आयोजित होगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्राधान्यों तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी संशुद्धित दिनांकित 5 मई, 2020, 8 अगस्त, 2020, 13 अगस्त, 2020 तथा तीसरी संशुद्धित दिनांकित 12 मई, 2020 के अनुसार एजीएम सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होगी। एजीएम के लिए प्रतिभूतिकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एजीएम में शामिल होने के दिशादेशों एजीएम की सूचना में उपलब्ध हैं।

एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उन सदस्यों को भेजे जाऐंगे जिन्होंने ईमेल आईडी कंपनी/आरपीए/डिआर/जिटर/वाइसिपेटिड के पास पंजीकृत है तथा कंपनी की वेबसाइट www.brawnbiochem.com पर भी उपलब्ध है।

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल का पता पंजीकृत नहीं करवाया है उन्हें वार्षिक प्रतिवेदन के साथ एजीएम की सूचना तथा ई-वोटिंग की निर्देशालिकाओं सेवन नहीं की जा सकती है। वार्षिक प्रतिवेदन, एजीएम की सूचना तथा ई-वोटिंग के निर्देशालिकाओं हारिल कर देने के लिए वे अपने ईमेल का पता एवं मोबाइल नम्बर कंपनी के पंजीकरण तथा शेयर अंतरण एजेंट, आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के पास ईमेल आईडी investor.service@rcmcdelhi.com पर हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रतियों के साथ ईमेल का पता, मोबाइल नम्बर, स्वयं सत्यापित पैन कार्ड की प्रतिलिपि तथा इलेक्ट्रॉनिक फोटोसो रहने पर क्लॉस्टर्ड मॉस्टर की तथा फीजिलबल फोटोसो रहने पर शेयर सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि ईमेल के जरिए भेज कर अनुरोध कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 (सुबह 9:00 बजे भामसा) शुरू होगी तथा बृहस्पतिवार, 24 सितम्बर, 2020 (अपरह्न 5:00 बजे भामसा) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान शीतक प्रारूप अथवा डिजिटल साइड प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले कंपनी के पास शेयरधारकता अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा सकते हैं। वोटिंग के लिए सीडीएएल द्वारा ई-वोटिंग प्रारूप निष्काट कर दी जाएगी और उचित संरक्षित या 24 सितम्बर, 2020 को अपराह्न 5:00 बजे के बाद वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यों जिन्होंने पहले अपने वोट नहीं जाले हैं उनके लिए एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। एजीएम से पहले जो सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डाल चुके हैं वे वीसीओ/एजीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल/भागीदारी कर सकते हैं परंतु वे दोबारा वोट डालने के पात्र नहीं होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने हेतु कंपनी के पास निम्नलिखित की अंतिम तारीख शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2020 है। कोई भी व्यक्ति, जिन्होंने एजीएम की सूचना भेजे जाने के उपरान्त कंपनी के सदस्य बने हैं तथा अंतिम तारीख तक शेयर धारण रखते हैं वे अपने वोट डालने के लिए investor.service@rcmcdelhi.com पर अनुरोध भेज कर लॉग इन आईडी तथा पारसार्ड प्राप्त कर सकते हैं। लॉग इन आईडी एवं पारसार्ड प्राप्त करने तथा ई-वोटिंग करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा भारतीय प्रतिभूतिकरण एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व तथा प्रकटन आयाचकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 एवं 44 नियमों के प्राधान्यों के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि 35वीं एजीएम के लिए सदस्यों के रजिस्ट्रेशन एवं कंपनी की शेयर अंतरण वही शनिवार, 19 सितम्बर, 2020 से शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2020 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेगी।

बोर्ड के लिए तथा उनकाी ओर से
 इरसा/
 प्रियका शर्मा
 कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
 दिनांक: 24.08.2020

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनैस लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 11वीं मंजिल, टॉवर ए पेंनसुलाना बिजनेस पार्क, गणपतराव मार्ग, लॉकर पार्क, नई दिल्ली 110070
 गणपतराव मार्ग, लॉकर पार्क, नई दिल्ली 110070

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों के लिए)

प्रतिभूतिकरण लिमिटेड (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार सूचित, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनैस लिमिटेड (आरएचडीएफसीएल) द्वारा प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संबंधितों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिकरण लिमिटेड प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के प्रयोग के तहत (1) स्व मेहरा पिता जवाहर चंद मेहरा, (ii) जवाहर मेहरा पिता हनुमन चंद मेहरा तथा (iii) रघु मेहरा पति जवाहर मेहरा, सभी का आवधिक पता सी-1/49, डीएलएफ अंडर विहार, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 है, और एक पता: फ्लैट नं. जीएफ-3, जीएफ, एमआईडी फ्लैट के पीछे की ओर, छत के अधिकार के बगैर, श्रीपी-एमआईडी, सुपर अर्धवृद्धि क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट सम्मिलित सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सार्वजनिक हित।

कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राकानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि अगर कर्जदार पर्याप्त रूप से सम्पत्तियों की बिक्री/हस्तांतरण की निष्पत्ति तारीख से पहले किसी भी समय सभी लागतों, शुल्कों तथा किए गए व्ययों के साथ आरएचडीएफसीएल के बकाया राशि चुकाना कर दें पर "आरएचडीएफसीएल" द्वारा संबंधित प्रत्याभूत सम्पत्तियों की बिक्री अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाएगा तथा "आरएचडीएफसीएल" द्वारा प्रत्याभूत सम्पत्तियों की बिक्री अथवा हस्तांतरण के लिए आने की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण नीचे उल्लेखित है

रिहायशी प्लॉट नं. सी-1/49, डीएलएफ अंडर विहार, ग्राम सुरुवालाबाद, तहसील एवं जिला लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-2011001 पर निर्मित रिहायशी फ्लैट नं. जीएफ-3, भूतल, एमआईडी फ्लैट के पीछे की ओर, छत के अधिकार के बगैर, श्रीपी-एमआईडी, सुपर अर्धवृद्धि क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट सम्मिलित सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सार्वजनिक हित।

स्थान: लोनी, गाजियाबाद
 तारीख: 21.08.2020

मेसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ताक्षर अधिकृत अधिकारी

मेसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ताक्षर अधिकृत अधिकारी

SHIVAM AUTOTECH